

## विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा -षष्ठ

दिनांक

-04-07-2020

विषय -हिन्दी (व्याकरण)

विषय शिक्षक -पंकज

कुमार

सुप्रभात बच्चों आज कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

### कारक

#### कारक की परिभाषा

कारक शब्द का अर्थ होता है – क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अथार्त संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं विभक्तियों या परसर्ग जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध कराते हैं उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं।

दूसरे शब्दों में कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, वह कारक कहलाता है।

#### कारक के उदाहरण

- वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है।
- वह पहाड़ों के बीच में है।
- नरेश खाना खाता है।
- सूरज किताब पढ़ता है।
- राम ने रावण को बाण मारा।

- रोहन ने पत्र लिखा।

## कारक के भेद

कारक के मुख्यतः आठ भेद होते हैं-

- कर्ता कारक
- कर्म कारक
- करण कारक
- सम्प्रदान कारक
- अपादान कारक
- संबंध कारक
- अधिकरण कारक
- संबोधन कारक

## कर्ता कारक

### कर्ता कारक की परिभाषा

जो वाक्य में कार्य को करता है, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता अहि जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है।

कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह 'ने' होता है।

### कर्ता कारक के उदाहरण

## विकास ने फुटबॉल खेली।

ऊपर दिए वाक्य में आप देख सकते हैं कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यह चिन्ह कर्ता कारक का होता है। इस वाक्य से हमें काम को करने वाले के बारे में जानकारी मिल रही है। यह हमें बता रहा है कि विकास ने फूटबाल खेली। अतः यह उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा।

गृहकार्य

(क) कारक किसे कहते हैं?

(ख) कारक के कितने भेद होते हैं भेदों के नाम लिखिए?

(ग) कर्ता कारक के चार उदाहरण लिखें?

ध्यान पूर्वक पढ़ें और याद करें।